



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2020 / 6 मार्गशीर्ष, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 नवम्बर, 2020

संख्या: एच.एस.जी-ए(3)-6/2020.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर एवं ग्राम योजना विभाग की अधिसूचना संख्या: टी.सी.पी.-ए (3)-1/2016 लूज तारीख

28-09-2017 द्वारा अधिसूचित और तारीख 7-10-2017 को राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भू-सम्पदा (विकास और विनियम) नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-सम्पदा (विकास और विनियम) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये नियम—राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 22 का प्रतिस्थापन.—**हिमाचल प्रदेश भू-सम्पदा (विकास और विनियम) नियम, 2017 के नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“22. ब्याज, शास्ति और प्रतिकर की वसूली और न्यायनिर्णयन अधिकारी या प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण के आदेश, निदेश या विनिश्चय का प्रवर्तन—(1) देय रकम की वसूली जैसे ब्याज, शास्ति या प्रतिकर लागू स्थानीय विधियों के अधीन उपबन्धित रीति में भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(2) भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 या तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन अधिकारी, प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश किया गया प्रत्येक निदेश या किया गया प्रत्येक विनिश्चय, न्यायनिर्णयन अधिकारी या प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण द्वारा उसी रीति में प्रवर्तित किया जाएगा और यह, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन अधिकारी या प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण को ऐसे आदेश, निदेश या विनिश्चय को निष्पादित करने में असफलता की दशा में ऐसे आदेश, निदेश या विनिश्चय को सिविल न्यायालय, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में भू-सम्पदा परियोजना अवस्थित है या उस सिविल न्यायालय को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वह व्यक्ति वास्तविक रूप से या स्वैच्छया निवास करता है या कारवार कर रहा है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहा है, जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया जाना है, निदेश दिया जाना है या विनिश्चय किया जाना है, को, ऐसा आदेश, निदेश या विनिश्चय भेजना विधिपूर्ण होगा।”।

मानों कि यह किसी सिविल न्यायालय में लम्बित किसी वाद में पारित की गई कोई डिक्री किया गया कोई आदेश, दिया गया कोई निदेश या दिया गया कोई विनिश्चय था।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—

(अक्षय सूद),  
सचिव (आवास)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. HSG-A (3)-6/2020 dated 25th November, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## HOUSING DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-171002, the 25th November, 2020

**No. HSG-A (3)-6/2020.—**In exercise of the powers conferred by section 84 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Act No. 16 of 2016), the Governor, Himachal

Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 notified *vide* Town and Country Planning Department Notification No. TCP-A(3)-1/2016- loose dated 28-9-2017 and published in the Official Gazette of Himachal Pradesh on 07-10-2017, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Amendment Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh.

**2. Substitution of rule 22.**—(1) For rule 22 of the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017, the following shall be substituted, namely:—

“22. Recovery of interest, penalty and compensation and enforcement of order, direction or decision of Adjudicating Officer or the Authority or the Appellate Tribunal.” (1) The recovery of the amounts due such as interest, penalty or compensation shall be recovered as arrears of land revenue in the manner provided under applicable local laws.

(2) Every order, direction or decision passed/made by the Adjudicating Officer or the Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 or rules and regulations made there under, shall be enforced by the Adjudicating Officer or the Authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or an order, direction or decision passed/made by a Civil Court in a suit pending therein, and it shall be lawful for the Adjudicating Officer or the Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, direction or decision, to send such order, direction or decision to the Civil Court within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located to execute such order, direction or decision or to the Civil Court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order, direction or decision is being issued, actually or voluntarily resides or carries on business or personally works for gain”.

By order,

Sd/-

(AKSHAY SOOD),  
Secretary (Housing).

---

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 मई, 2020

**संख्या: पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 90/2010-1.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव आंजी तहसील व जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में राजगढ़ सोलन बाईपास सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा में)
सोलन	सोलन	आंजी	716 / 439 / 255 / 2 / 1	0-1
			कुल कित्ता. . 1	0-1

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

### लोक निर्माण विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 26 नवम्बर, 2020

**सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)7 / 2020.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव कावगड़ी, तहसील एवं जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में सोलन बाईपास सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्—द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, (शिमला क्षेत्र) विन्टर फील्ड शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

## विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा में)
सोलन	सोलन	कावगड़ी	182 / 168 / 94 / 1	0-4
		कुल जोड़ . .	कित्ता. .1	0-4

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / -  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## LAW DEPARTMENT

## NOTICE

*Shimla-2, the 26th November, 2020*

**No. LLR-E(9)-12/2018-Leg.**—Whereas, Shri Ashwani Arora, Advocate s/o Sh. Ram Parkash Arora, r/o VPO Amb, Tehsil Amb, District Una, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Amb of District Una under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred *vide* Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Amb of District Una.

Sd/-  
(Competent Authority),  
*DLR-cum-Deputy Secretary, (Law-English).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Additional Registrar of Marriages, Shri Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur, H.P.**

Sh. Sandeep Kumar s/o Late Sh. Rattan Lal, r/o Village Chambh Bhujan, Post Office Ree, Gram Panchayat Ree, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P.

*Versus*

1. General Public
2. Pradhan, G.P. Ree, Tehsil Sh. Naina Devi Ji, District Bilaspur at Swarghat

*Proclamation of marriage as per provision under section 8(4) and 11 of the Registration of Marriages Act, 1996.*

Whereas the above named applicant has made an application under sections 8(4) and 11 of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 for the registration of his marriages the applicant Sh. Sandeep Kumar s/o Late Sh. Rattan Lal, r/o Village Chambh Bhujan, Post Office Ree, Gram Panchayat Ree, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P. hereinafter called as Bridegroom and Smt. Khushali hereinafter called as Bride have submitted affidavits stating therein that both have solemnized marriage with each other on 10-11-2019 as per Hindu rites and customs. But they have not registered the said marriage any where in India till date. The Bride Khushali is the daughter of Sh. Mita Ram, r/o Ward No. 1, Baddi, P.O. & Tehsil Baddi, District Solan, H.P. and her usual place of residence is Chambh Bhujan, Post Office Ree, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P.

Hence, proclamation is hereby made to the respondents, general public/gram panchayat Ree for inviting the objection, if any, if someone has any objection regarding registration of said marriage, he may appear in this court on or before 10-12-2020 failing which *ex-parte* proceeding will be initiated and the order of the registration of marriage will be prepared and announced.

Given under my hand and the seal of the court on dated 10-11-2020.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate-cum- Additional Registrar of Marriages  
Shri Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur, H.P.*

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्रीमती बिन्दी देवी पत्नी श्री जय सिंह, गांव ननेहली, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रूपणी, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदया चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3954 दिनांक 03-11-2020 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2020/18345, दिनांक 24-10-2020, (2) शपथ पत्र, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) Non Availability Certificate, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल, (8) राशन कार्ड जिसमें आवेदिका श्रीमती बिन्दी देवी पत्नी श्री जय सिंह, गांव ननेहली, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की सौतन श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री जय सिंह, गांव ननेहली ग्राम पंचायत रूपणी की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका की सौतन श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री जय सिंह, गांव ननेहली ग्राम पंचायत रूपणी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 24-10-2020 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री जय सिंह, गांव ननेहली ग्राम पंचायत रूपणी, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 15-12-1999 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका की सौतन श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री जय सिंह, गांव ननेहली, ग्राम पंचायत रूपणी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत रूपणी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 11-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री तिलक राज पुत्र श्री डीडो राम, गांव भुईंद, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदया चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4042 दिनांक 09-11-2020 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2020/18344, दिनांक 24-10-2020, (2) शपथ पत्र, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) Non Availability Certificate, (6) आधार कार्ड, जिसमें आवेदक श्री तिलक राज पुत्र श्री डीडो राम, गांव भुईंद, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की दादी श्रीमती तुलसी पत्नी श्री धनी राम, ग्राम पंचायत दुलाहर की मृत्यु तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक की दादी श्रीमती तुलसी पत्नी श्री धनी राम, ग्राम पंचायत दुलाहर की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 24-10-2020 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती तुलसी पत्नी श्री धनी राम, ग्राम पंचायत दुलाहर, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 01-05-1992 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि

में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की दादी श्रीमती तुलसी पत्नी श्री धनी राम, ग्राम पंचायत दुलाहर की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत दुलाहर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 25 ना० तह० वाचक उप-तहसील पुखरी 2020/672

तारीख दायरा : 12-11-2020

साहब सिंह पुत्र श्री रूसला, गांव खोपरा, महाल हमल, परगना धुन्धी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश  
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

साहब सिंह पुत्र श्री रूसला, गांव खोपरा, महाल हमल, परगना धुन्धी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड में साहब सिंह पुत्र श्री रूसला दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दुलाहर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम साहवणू दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इशतहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम साहवणू उर्फ साहब सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त दुलाहर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12-11-2020 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।



**In the Court of Sh. Shivam Pratap Singh, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba,  
District Chamba (H. P.)**

Vijay Malhotra s/o Sh. Ishwar Chand Malhotra aged 40 years, resident of Village Obri, P.O. Sultanpur, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.), (Bridegroom/Husband).

and

Meena Devi d/o Deso aged 32 years, resident of Village Dhadiyara, P.O. Mangla, Tehsil & District Chamba (H. P.) (Bride/wife) . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).*

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 22-11-2018 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has nay objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 11-12-2020 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this day of 4th of November, 2020.

Seal.

SHIVAM PRATAP SINGH, IAS,  
Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).

**In the Court of Sh. Shivam Pratap Singh, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba,  
District Chamba (H. P.)**

1. Vinod Kumar s/o Sh. Chatro aged 27 years, resident of Village Halel, P.O. Rathiar, Tehsil & District Chamba (H. P.).

and

Arti d/o Pyar Singh aged 24 years, resident of Village Unah, P.O. Darwin, Tehsil & District Chamba (H. P.) . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.— Notice regarding registration of Marriage under Section 15 of Special marriage Act, 1954.*

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as ammended by the Marriage Laws (Amendment Act, 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 28-01-2016 at their place of residence and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 11-12-2020 after that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this day of 11th of November, 2020.

Seal.

SHIVAM PRATAP SINGH, IAS,  
Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).

**In the Court of Sh. Shivam Pratap Singh, IAS, Sub-Divisional Magistrate Chamba,  
District Chamba (H. P.)**

Rohit Kumar s/o Sh. Tilak Raj aged 27 years, resident of Village Saru, P.O. Saru, Tehsil & District Chamba (H. P.) (Bridegroom/Husband).

and

Sonika d/o Sh. Jaram Singh aged 27 years, Village Haripur, P.O. Sarol, Tehsil & District Chamba (H. P.) (Bride/wife) . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).*

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 10-07-2019 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Gram Panchayat Udaipur, Development Block Chamba, Tehsil & Distt. Chamba, H.P.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has nay objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 15-12-2020 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 16th day of November, 2020.

Seal.

SHIVAM PRATAP SINGH, IAS,  
Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).

**ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)**

1. Mr. Shammi Kumar age 42 years s/o Sh. Jagdish Kumar, r/o Village Ghumarwin, P.O. Pairwin, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Pramila Rai age 41 years d/o Sh. Aja Karna Rai, House No. 1271, Kanhiya Mode Near Mata Mandir, Sector-39, Jharsa Gurgaon (Haryana) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व (शम्मी कुमार सुपुत्र श्री जगदीश कुमार व श्रीमती प्रमिला राय सुपुत्रि श्री अज करण राय) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 11-12-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 11-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
विवाह पंजीकरण अधिकारी,  
बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

**In the Court of Sh. Vijay Kumar, HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)**

1. Amit Kumar s/o Sh. Babu Ram aged 29 years, r/o Village Kardho, P. O. Panyali, Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.).

2. Jyoti Negta Kaushal d/o Sh. Surinder Singh aged 27 year, r/o Village Ching Dharmana, P.O. Anti, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) . . Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.— Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Amit Kumar s/o Sh. Babu Ram aged 29 years, r/o Village Kardho, P. O. Panyali, Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.) & Jyoti Negta Kaushal d/o Sh. Surinder Singh aged 27 year, r/o Village Ching Dharmana, P.O. Anti, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-10-2020 at Shiv Mandir, Patan Bazar Nadaun, Tehsil Nadaun, District Hamirpur and they are living as husband and wife since their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objections regarding this can file the objections personally or in writing before this court on or before 21-12-2020 at 10.00 A.M. it will be entertained and the marriage will be registered accordingly.

Issued on this day 11-11-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

VIJAY KUMAR, HPAS,  
Sub Divisional Magistrate,  
Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Roshan Lal, Village & Post Office Chamned, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Himanshi d/o Sh. Sanjeev Kumar, r/o Near Jaswir Hospital Gill Wali Gali Nabha, Patiala (Punjab). . . Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Rakesh Kumar and Smt. Himanshi have filed an application U/S 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 04-10-2020 as per the Hindu ritual and customs. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage can file his/her objections personally or in writing

before this court on or before 23-12-2020. In case no objection is received by 23-12-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 10-11-2020.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

---

**In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Sanjeev Kumar s/o Sh. Pyar Chand, r/o V.P.O. Thana, Tehsil & District Hamirpur, Himachal Pradesh.

2. Kajal Kumari d/o Sh. Shambhu Dass, r/o Village Gosyan Bigha, P.O. G. B. Kendua, Tehsil Sirdla, District Navada (Bihar) . . Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage

Sh. Sanjeev Kumar & Miss Kajal Kumari have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 10-12-2020. In case no objection is received by 10-12-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 28-10-2020.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,  
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

---

**In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Milap Chand s/o Sh. Nek Ram, r/o Village Upper Darogan, P.O. Touni Devi, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Swati Devi d/o Sh. Joginder Singh, r/o Ward No. 4, P. O. Jhaniari Devi, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Milap Chand & Smt. Swati Devi have filed an application U/S 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 18-09-2020 as per the Hindu ritual and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 10-12-2020. In case no objection received by 10-12-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 28-10-2020.

Seal.

Sd/-  
Marriage Officer-cum-SDM,  
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

1. Mr. Pardeep Kumar age 27 years s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Dulhera, P.O. Kaswar, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Ankita Kumari age 19 years d/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Malehra, P.O. Jhanjani, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व (प्रदीप कुमार सुपुत्र श्री राज कुमार व अंकिता कुमारी पुत्री श्री सुरेश कुमार) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 12-01-2021 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 29-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
विवाह पंजीकरण अधिकारी,  
बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

**In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Sahil s/o Sh. Onkar Chand, r/o Village UMBER, P.O. Maharaj Nagar, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.).

2. Smt. Arti Verma d/o Sh. Ashok Kumar, r/o Village Ropari, P.O. Maharaj Nagar, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) . . *Applicants.*

*Versus*

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Sahil & Smt. Arti Verma have filed an application U/S 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 30-10-2020 as per the Hindu ritual and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 14-12-2020. In case no objection received by 14-12-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 05-11-2020.

Seal.

Sd/-  
Marriage Officer-cum-SDM,  
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

---

**In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Parkash Chand, r/o Village Sangroh, P.O. Samirpur, Tehsil Bamson at Touni Devi, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

2. Shivani Kumari d/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village Tikkri Ghuralan, P.O. Ludder Mahadev, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh . . *Applicants.*

*Versus*

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage

Sh. Rajesh Kumar & Shivani Kumari have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 14-12-2020. In case no objection is received by 14-12-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 05-11-2020.

Seal.

Sd/-  
Marriage Officer-cum-SDM,  
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Ajay Kumar s/o Sh. Ghasitu Ram, r/o Village Har, P.O. Nalti, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Sukanya Kumari d/o Pritam Chand, r/o Village Bamloh, P.O. Uhal, Tehsil Touni Devi, District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Ajay Kumar & Smt. Sukanya Kumari have filed an application U/S 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 03-10-2020 as per the Hindu ritual and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 16-12-2020. In case no objection received by 16-12-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 05-11-2020.

Seal.

Sd/-  
Marriage Officer-cum-SDM,  
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).



**In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Balkar Singh s/o Sh. Mastak Singh, r/o Village Bhambloh, P.O. Uhal, Tehsil at Touni Devi, District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Narbhutigh d/o Sh. Tula Ram, r/o V.P.O. Bari, Tehsil Nichar, District Kinnaur (H.P.) at present Village Bhambloh, P.O. Uhal, Tehsil Bamson at Touni Devi, District Hamirpur (H.P.)

*. . Applicants.*

*Versus*

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Balkar Singh & Smt. Narbhutigh have filed an application U/S 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 22-10-2020 as per the Hindu ritual and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 21-12-2020. In case no objection received by 21-12-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 09-11-2020.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,  
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

---

**In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Amit Kumar s/o Sh. Hans Raj, r/o Village Khaterwar Tikkari Manhansa (Bassi), Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

2. Savita Devi d/o Sh. Rawat Singh, r/o Village Har, P.O. Ghumma, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh

*. . Applicants.*

*Versus*

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage

Sh. Amit Kumar & Savita Devi have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 18-12-2020. In case no objection is received by 18-12-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 09-11-2020.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,  
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Veerender Singh Thakur s/o Sh. Jaswant Singh Thakur, r/o Village Upper Lamba Graon, Tehsil Jaisinghpur, District Kamgra (H.P.).

2. Smt. Anupam Thakur d/o Sh. Dalip Chand Thakur, r/o Village Pepli, P.O. Dawar, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) at present o/o BMO Touni Devi, District Hamirpur (H.P.)  
.. Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Veerender Singh Thakur & Smt. Anupam Thakur have filed an application U/S 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 01-11-2020 as per the Hindu ritual and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 21-12-2020. In case no objection received by 21-12-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 09-11-2020.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,  
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

**ब अदालत श्रीमती वीना ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ननखरी,  
जिला शिमला (हि0 प्र0)**

श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री गोपी चन्द उर्फ गोपी नन्द, गांव गडोली, डाकघर खुन्नी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरखास्त श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री गोपी चन्द उर्फ गोपी नन्द, गांव गडोली, डाकघर खुन्नी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उस का नाम राजस्व रिकार्ड के महाल खुन्नी पनोली व गाहण के राजस्व रिकार्ड में वीर सिंह दर्ज है जो कि गलत है प्रार्थी जिसे बलबीर सिंह दुरुस्त करवाना चाहता है पुष्टि हेतु नकल जमाबन्दी सम्बन्धित शपथ—पत्र व आधार कार्ड, बी0पी0एल0 प्रमाण—पत्र संलग्न किया गया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को या भूपेन्द्र कुमार को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06—12—2020 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती बारा सम्बन्धित गिरदावर हल्का को राजस्व कागजात में अमलद्रमाद हेतु आदेश पारित किए जाएंगे।

अतः दिनांक 06—11—2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्रीमती वीना ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ननखरी,  
जिला शिमला (हि0 प्र0)**

श्रीमती पविता देवी पत्नी श्री किशोरी लाल, गांव नावण, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरखास्त श्रीमती पविता देवी पत्नी श्री किशोरी लाल, गांव नावण, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उस का नाम राजस्व रिकार्ड माल कागजात खाता/खतौनी 45/104, कित्ता 03, कुल रकबा 00—65—44 है0 चक खमाडी के राजस्व रिकार्ड में बबीता दर्ज है जो कि गलत है प्रार्थिया जिसे पविता देवी दुरुस्त करवाना चाहती है पुष्टि हेतु नकल जमाबन्दी सम्बन्धित शपथ—पत्र व आधार कार्ड संलग्न किया गया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06—12—2020 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी

आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती बारा सम्बन्धित गिरदावर हल्का को राजस्व कागजात में अमलद्रमाद हेतु आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्रीमती वीना ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ननखरी,  
जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री गंगा सुख पुत्र श्री रतनू, गांव नाना सेरी, डाकघर व तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरखास्त श्री गंगा सुख पुत्र श्री रतनू, गांव नाना सेरी, डाकघर व तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उस का नाम राजस्व रिकार्ड के महाल में बेवट गंगा राम दर्ज है जो कि गलत है प्रार्थी जिसे गंगा सुख दुरुस्त करवाना चाहता है पुष्टि हेतु नकल जमाबन्दी सम्बन्धित शपथ—पत्र व आधार कार्ड, पहचान—पत्र व नकल परिवार रजिस्टर संलग्न किया गया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-12-2020 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती बारा सम्बन्धित गिरदावर हल्का को राजस्व कागजात में अमलद्रमाद हेतु आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सुरेश मोहिल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी,  
जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री मनमोहन सिंह व ठाकुर सैन पुत्रगण स्व0 श्री भोला राम, निवासी गांव चेबडी, डाकघर दनावली, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरखास्त श्री मनमोहन सिंह व ठाकुर सैन पुत्रगण स्व० श्री भोला राम, निवासी गांव चेबडी, डाकघर दनावली, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उस का नाम राजस्व रिकार्ड के महाल चेबडी के राजस्व रिकार्ड व शजरा नस्ब में मनमोहन दर्ज है जो कि गलत है प्रार्थी जिसे मनमोहन सिंह व ठाकुर सैन पुत्रगण स्व० श्री भोला राम दुरुस्त करवाना चाहता है पुष्टि हेतु नकल जमाबन्दी सम्बन्धित व शजरा नस्ब संलग्न किया गया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-12-2020 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती बारा सम्बन्धित गिरदावर हल्का को राजस्व कागजात में अमलद्रमाद हेतु आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

सुरेश मोहिल,  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्रीमती वीना ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ननखरी,  
जिला शिमला (हि० प्र०)

श्री मेहर सिंह पुत्र स्व० श्री नरैण दास, निवासी गांव देवरा, डाकघर व तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं० 100/373, ता 377, कित्ता-07, कुल रकबा 00-52-18 है० खाता/खतौनी नं० 99/370, ता 372, कित्ता-08, कुल रकबा 00-88-15 है०, वाका चक थाना, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री मेहर सिंह पुत्र स्व० श्री नरैण दास, निवासी गांव देवरा, डाकघर व तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि मुताबिक ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थी का नाम मेहर सिंह सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं० 100/373, ता 377, कित्ता-07, कुल रकबा 00-52-18 है०, खाता/खतौनी नं० 99/370, ता 372, कित्ता-08, कुल रकबा 00-88-15 है०, वाका चक थाना, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०) की मलकियत में मोहर सिंह दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम मेहर सिंह जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने जन्म प्रमाण-पत्र, नकल परिवार, आधार कार्ड, शपथ-पत्र संलग्न दरखास्त कर रखा है। प्रार्थी अपना नाम कागजात माल में मोहर सिंह के स्थान पर मोहर सिंह उर्फ मेहर सिंह दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में मोहर सिंह उर्फ मेहर सिंह दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह

दिनांक 06-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 06-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

वीना ठाकुर,  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

श्री विजय कुमार पुत्र रंगी लाल, निवासी सुनोग, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)  
प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विजय कुमार पुत्र रंगी लाल, निवासी सुनोग, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र विजय कुमार की जन्म तिथि 18-04-1981 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत में अपनी ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 18-04-1981 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को विजय कुमार की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 09-12-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त विजय कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 09-11-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

श्री धनवीर सिंह पुत्र खजान सिंह, निवासी सालग सडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)  
प्रतिवादी।

बनाम

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री धनवीर सिंह पुत्र खजान सिंह, निवासी सालग सडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1963 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत मालगी में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1963 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को धनवीर सिंह की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 06-12-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त धनवीर सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत मालगी में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-11-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

